

## प्रेस नोट दिनांक-05.01.2021

(1). प्रभारी निरीक्षक व निरीक्षक अपराध थाना मऊ तथा उनकी टीमों ने ग्राम खपटिहा में अन्तिमा देवी की हत्या की घटना के अभियुक्त को गिरफ्तार कर 05 दिन के अन्दर घटना का सफल अनावरण करने में सफलता प्राप्त की

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री गुलाब त्रिपाठी, निरीक्षक अपराध ब्रजेश कुमार यादव तथा उनकी टीम द्वारा दिनांक 31.12.2020 को थाना मऊ अन्तर्गत ग्राम खपटिहा में अन्तिमा देवी की हत्या की घटना के अभियुक्त सुधीर मिश्रा को गिरफ्तार करते हुये, 05 दिन के अन्दर ही घटना का सफल अनावरण करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 31.12.2020 को ग्राम खपटिहा में श्री हरीशचन्द्र मिश्रा पुत्र राजकुमार निवासी खपटिहा की पुत्री अन्तिमा देवी का शव ग्राम खपटिहा अन्तर्गत इन्द्र कुमार के सरसों के खेत में पड़ा मिला था। इस घटना के सम्बन्ध में मृतका के पिता की तहरीर पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 276/2020 धारा 302 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रभारी निरीक्षक मऊ के शीघ्र अनावरण हेतु सख्त निर्देश दिये गये थे।

उक्त मुकदमें कि विवेचना प्रभारी निरीक्षक मऊ द्वारा की जा रही थी कि विवेचना से अभियुक्त सुधीर द्विवेदी पुत्र सन्तदास निवासी खपटिहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट उम्र करीब 25 वर्ष प्रकाश में आया जिसे दिनांक 04.01.2021 को समय करीब 15.30 बजे खपटिहा गांव के तालाब से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ करने पर अपने जुर्म को स्वीकार करते हुये बताया कि दिनांक 31.12.2020 को समय करीब 05 बजे शाम अपने साथियों के साथ गांव पहुंचा तो वहां गहने पहने हुये अन्तिमा देवी शौच क्रिया के लिये जाती दिखायी दी, इस पर गहनों के लालच में उसकी नियत खराब हो गयी तथा गाय हांकने का बहाना लेकर पीछे-पीछे गया जैसे ही अन्तिमा देवी इन्द्रकुमार के सरसों के खेत में शौच क्रिया करने लगी तो उसे पीछे से पकड़ लिया और जमीन पर पटककर, मंगलसूत्र लेने का प्रयास किया तो अन्तिमा देवी ने उसे दांतों से काट लिया, जिस पर अभियुक्त सुधीर द्विवेदी ने अन्तिमा देवी की गला दबाकर हत्या कर दी। छीना छपटी के दौरान मंगलसूत्र सरसों के खेत में कहीं खो गया था तथा मृतका के पैरों से पायलें निकाल कर मौके से भाग गया था तथा पायलों को पतनिया वाली रोड पर सरपतहा मोड के पास नहर के किनारे बबूल के पेड़ के पास झाड़ी में छिपा दिया था। अभियुक्त की निशा देही पर बताये गये स्थान पर जाकर पायलों को बरामद किया गया तथा मृतका के माता-पिता को मौके पर बुलाकर पालयों को दिखाकर पहचान करायी गयी जिसे देखकर दोनों ने पहचान लिया। झीना छपटी के दौरान गिरे मंगलसूत्र को घटना के दिन ही पुलिस द्वारा शव के साथ मौके से बरामद किया गया था। मु0अ0सं0 276/2020 धारा 302 भादवि में धारा 394/411 की बढ़ोत्तरी की गयी।

इस प्रकाश प्रभारी निरीक्षक मऊ, निरीक्षक अपराध तथा उनकी टीम द्वारा घटना के 05 दिन के अन्दर ही अज्ञात घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त की।

### बरामदगी:-

मृतका की चांदी की पायलें

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री गुलाब त्रिपाठी
2. निरीक्षक अपराध श्री ब्रजेश कुमार यादव
3. वरि0उ0नि0 श्री गोपाल चन्द्र कनौजिया
4. उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्या
5. आरक्षी शिवम मिश्रा

6. आरक्षी सतीश कुमार
7. आरक्षी चालक राजकुमार

(2). आज दिनांक 05.01.2021 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शेषमणि पांडेय एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील मानिकपुर में फरियादियों की समस्याओं को सुनकर त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

इस दौरान उपजिलाधिकारी मानिकपुर श्री संगमलाल गुप्ता, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री सुबोध गौतम, वन प्रभागीय अधिकारी श्री कैलाश प्रकाश, प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया, प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री रमेशचन्द्र, प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री दीनदयाल सिंह, प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री सुशीलचन्द्र शर्मा, प्रभारी चौकी सरैया, पीआरओ श्री दिनेश कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(3). आज दिनांक 05.01.2021 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शेषमणि पांडेय एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा जिला अस्पताल सोनेपुर का निरीक्षण कर कोविड-19 वैक्सीन के लगने वाले टीके पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिशा निर्देश देते हुआ बताया वैक्सीन के टीकाकरण के दौरान किसी भी प्रकार समस्या पर सम्बन्धित को अवगत कराये। जनपद में समस्त कोविड-19 टीकाकरण बूथों पर पुलिस की ड्यूटियां लगायी गयीं है।

इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री विनोद कुमार, चिकित्सा अधीक्षक, पीआरओ श्री दिनेश कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री गुलाब त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक मऊ के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रामकृपाल तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र रघुनन्दन सिंह निवासी खोंपा थाना मऊ चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधीनियम पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम:-**

1. उ0नि0 उ0नि0 श्री रामकृपाल थाना मऊ
2. आरक्षी अमित चौरसिया
3. आरक्षी हृदेश भारती

(5). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 05.01.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा बैंक, बिसंडा तिराहा, बरेठी रोड आदि जगहों में, एंटी रोमियो टीम थाना भरतकूप के द्वारा ग्राम रौली कल्याणपुर मे भ्रमण किया गया तथा प्राइमरी स्कूल के अध्यापक अध्यापिकाओ से बात की गई, एंटी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में भ्रमण करके आदर्श इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मानिकपुर में, एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर में भ्रमण कर बैंक, विद्यालयों के आस पास, एंटी रोमियो टीम कोतवाली कर्वी द्वारा मिशन रोड एलआईसी चौराहा, सोने पुर, गणेश बाग, तरौहा में, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चुन्नी चौराहा, पटेल तिराहा पर, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुंडी द्वारा कस्बा मारकुंडी आर्यावर्त बैंक और ग्राम किहुनिया, महूलिया पुरवा में, एंटी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा महामती प्राणनाथ डिग्री कालेज मऊ में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस

आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में गैंग की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.01.2021 को क्षेत्राधिकारी मऊ श्री सुबोध गौतम के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री रमेशचन्द्र, थाना मारकुण्डी पुलिस टीम एवं पीएसी बल के साथ थाना मारकुण्डी अन्तर्गत करका विछौनी के जंगल में गैंग के धरपकड़ हेतु कॉम्बिंग की गयी।